

भारत सरकार
गृह मंत्रालय
राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 69

दिनांक 07.12.2022/16 अग्रहायण, 1944 (शक) को उत्तर के लिए

सीएपीएफ कार्मिकों के कल्याण के लिए अर्धसैनिक झंडा दिवस कोष शुरू किया जाना

69. श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) कार्मिकों और उनके आश्रितों के कल्याण के उद्देश्य से एक अर्धसैनिक झंडा दिवस कोष शुरू करने की योजना बना रही है;

(ख) यदि हां, तो इस कोष की नियोजित राशि क्या है और सरकार कब तक इस कोष की घोषणा करने जा रही है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार सीएपीएफ कार्मिकों के कल्याण के लिए बढ़ी हुई निधि की आवश्यकता को कैसे पूरा करने की योजना बना रही है; और

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नित्यानंद राय)

(क) और (ख): जी, नहीं।

(ग) और (घ): सभी केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) और असम राइफल्स (एआर) का प्रतिनिधित्व करने वाला कोई साझा झंडा नहीं है। प्रत्येक सीएपीएफ का अपना झंडा है और वह अपना स्थापना दिवस अलग से मनाता है। सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा में सीएपीएफ और असम राइफल्स द्वारा निभाई जा रही महत्वपूर्ण भूमिका से अवगत है और उनके कार्मिकों की कल्याण संबंधी जरूरतों को उच्च प्राथमिकता देती है।

**GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF HOME AFFAIRS**

**RAJYA SABHA
UNSTARRED QUESTION NO. 69**

**TO BE ANSWERED ON THE 7TH DECEMBER, 2022/ AGRAHAYANA 16, 1944
(SAKA)**

**STARTING PARAMILITARY FLAG DAY FUND FOR WELFARE OF CAPF
PERSONNEL**

69. SHRI DEEPENDER SINGH HOODA:

Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Government is planning to start a Paramilitary Flag Day Fund aimed at the welfare of the CAPF personnel and their dependents;

(b) if so, what is the planned corpus of the Fund and by when Government is declaring such a Fund;

(c) if not, the reasons therefor and how Government is planning to meet the enhanced fund requirement for CAPF personnel welfare; and

(d) the details thereof?

ANSWER

**MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS
(SHRI NITYANAND RAI)**

(a) & (b): No sir.

(c) & (d): There is no common flag representing all Central Armed Police Forces (CAPFs) & Assam Rifles (AR). Each CAPF has its own flag and celebrates its raising day separately. The Government is cognizant of the crucial role played by the CAPFs and AR in National Security and accords high priority to welfare needs of their personnel.
